

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 401]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 सितम्बर 2016—आश्विन 5, शक 1938

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन भवन,  
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (म. प्र.) 462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2016

क्र. एफ-65-02-2015-तीन-576.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक एफ-65-02-2015-तीन-नपा-267, दिनांक 6 फरवरी 2015 द्वारा नगरपालिक निगम, इन्दौर, जिला इन्दौर के माह जनवरी 2015 में कराये गये आम निर्वाचन के निर्वाचित पार्षदों की सूची जो कि “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” क्रमांक 58, दिनांक 6 फरवरी 2015 में प्रकाशित की गई है, अधिसूचना में वार्ड क्रमांक 18 (अठारह) “भूपेन्द्र उर्फ शेखर” के स्थान पर “भूपेन्द्र पिता लालताप्रसाद” पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.